

March 29, 2025

The Officer-In-Charge (Listing) Listing Department National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Symbol: MINDACORP	Head - Listing Operations, BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 538962
--	---

Sub: Filing of Newspaper clippings dated March 29, 2025 regarding publication of notice of dispatch of Postal Ballot by Minda Corporation Limited

Dear Sir / Madam,

The Company has published notice in Hindi (Jansatta) and English (Financial Express) dated March 29, 2025 for the purpose of confirmation of dispatch of postal ballot notice on March 28, 2029.

Copies of newspaper clippings are attached herewith for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Minda Corporation Limited

Pardeep Mann
Company Secretary
Membership No. A13371

MINDA CORPORATION LIMITED (GROUP CORPORATE OFFICE)

CIN: L74899DL1985PLC020401A

D-6-11, Sector 59, Noida – 201301, U.P., India

Tel. : +91-120-4787100

Fax : +91-120-4787201

Registered office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052

Website: www.sparkminda.com

Minda Corporation Limited

CIN: L74899DL1985PLC020401

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052

Corporate Office: D-6-11, Sector - 59, Noida - 201301, Uttar Pradesh

Telephone: +91-0120 - 4442500

Website: www.sparkminda.com, E-mail: investor@mindacorporation.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

The Members of Minda Corporation Limited (the "Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactments) thereof for the time being in force) (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 03/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/PI/CIR/2024/1133 dated 3rd October, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), Regulation 44 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (the "Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Articles of Association of the Company and any other applicable law, rules, circulars, notifications and regulations (including any statutory modifications or re-enactments) thereof, for the time being in force), the approval of the members of the Company is sought for Issuance of 76,50,000 shares warrants on preferential basis @ Rs. 550 per warrant to Minda Capital Private Limited, a Promoter of the company by Special Resolution through postal ballot ("the Postal Ballot") by way of remote e-voting ("e-voting") process.

Pursuant to the MCA circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Friday, March 28, 2025 through electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participants) as on Friday, March 21, 2025 ("Cut-off date").

The said notice is also available on the website of the Company www.sparkminda.com, the relevant section of BSE Limited (BSE) www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited (NSE) www.nseindia.com on which the equity shares of the Company are listed and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com.

In accordance with the provisions of the MCA Circulars, members can vote only through e-voting process. The voting rights of the members shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on the Cut-off date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for the purpose of providing e-voting facilities to all its members. The e-voting shall commence from Saturday, March 29, 2025 at 9.00 A.M. IST and end on Sunday, April 27, 2025 at 05.00 P.M. IST. The e-voting facility will be blocked by NSDL immediately thereafter i.e. e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Members who have not updated their email address are requested to register the same in respect of shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Skyline Financial Services Private Limited either by email to admin@skylinertn.com or by post to D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020.

The Board has appointed Mr. Biswajit Ghosh (FCS-8750, CP No-8239), Partner, failing him Mr. Pramod SM (FCS-7834, CP No-13784), Partner, BMP & Co. LLP, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result of the e-voting by Postal Ballot will be announced not later than 2 working days or 3 days, whichever is earlier from the conclusion of e-voting and will also be displayed on the Company website www.sparkminda.com, as well as on NSDL's website www.evoting.nsdl.com and communicated to the stock exchanges and RTA.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051, at the designated email id - evoting@nsdl.com or at telephone nos. +91 022 24997000, +91 022 48867000, who will also address the grievances connected with voting by electronic means Company Secretary, Minda Corporation Limited, D-6-11, Sector-59, Noida - 201301, Tel: 0120-4442500 or email at investor@mindacorporation.com.

For Minda Corporation Limited

Sd/-

Pardeep Mann

Company Secretary

M. No. A-13371

Place: Pune

Date: March 28, 2025

 HINDUJA HOUSING FINANCE	HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED Registered office at 27-A, Developed Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu. E-mail : auction@hindujahousingfinance.com	SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)]
--	---	--

Contact No.: Dhruv Vashist - 8806967651, Ankit Garg - 9654060881, Gaurav Rathore - 9999243349

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as "the Rules"). Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below-described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Hinduja Housing Finance Limited (Secured Creditor) having its Corporate Office at 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai - 600015 will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on the dates mentioned below for realization of the amount due to the Secured Creditor from the borrowers and guarantors. The sale will be done by the Authorized Officer through e-auction platform provided at the website: www.bankeuctions.com

INSPECTION DATE : 30-04-2025 | EMD DEPOSITE DATE : 02-05-2025 | AUCTION DATE : 05-05-2025

1 Borrower(s) /Co-Borrower(s) / Guarantor(s) Demand Notice Date & Amount: 27-Aug-24 & Rs.2500377.00 as on 14-Aug-24

DL/BDP/BDPR/A000000366, 1. Mr. MOHD ARIF KHAN 2. Mrs. RIHANA RIHANA Date of Symbolic Possession: 24-Dec-24 Total Outstanding Rs. 2697839/- Reserve Price Rs. 26,98,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,69,800/-

Description Of The Immovable Property : PLOT NO-36-C, AERAMEASURING 100 SQYDS (83.61 SQ MTRS) COMPRISED IN KHASRA NO 1403, MIN SITUATED IN C BLOCK SECT-03, GIRI MARKETVILLAGE LONI GHAZIABAD-201102

2 DL/BDP/BDPR/A000000455, 1. Mr. MOHD ARIF KHAN 2. Mrs. RIHANA RIHANA Demand Notice Date & Amount: 27-Aug-24 & Rs.2775213.00 as on 14-Aug-24

Date of Symbolic Possession: 24-Dec-24 Total Outstanding Rs. 29,899/- Reserve Price Rs. 73,80,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,82,000/-

Description Of The Immovable Property : PROPERTY BEARING NO-19/C, 280 GALI NO 1 GIRI MARKETKELA GOODAM AERAMEASURING 300 SQ. YARDS PART OF KHASRANO-1403, SITUATED AT VILLAGE LONI.

3 DL/NCU/NOIU/A000001090, 1. Mr. SHIVAM CHAUHAN 2. Mrs. RINA RINA Demand Notice Date & Amount: 17-Aug-24 & Rs.1526937/- as on 16-Aug-24

Date of Symbolic Possession: 7-Jan-25 Total Outstanding Rs. 15,70,488/- Reserve Price Rs.18,26,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,82,600/-

Description Of The Immovable Property : Flat No. C-2, Second Floor (hrs Front), Plot No. 192, Khasra No. 1550, Kailashpuram Second, Village Raispur, Paragana Dasna, Tehsil And District Ghaziabad, Uttar Pradesh.

4 DL/NCU/GHAU/A000000325 & DL/NCU/GHAU/A000001220, 1. Mr. SAJID SAJID 2. Mr. SHAHID SHAHID Demand Notice Date & Amount: 9-Mar-24 & Rs. 918148/- as on 9-Mar-24

Date of Symbolic Possession: 30-Dec-24 Total Outstanding Rs. 10,23,549/- Reserve Price Rs. 15,09,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,50,900/-

Description Of The Immovable Property : Freehold residential Plot Area measuring 75 sq. Yds., i.e. 62.70 sq mir, out of khasra no.330, situated at village Asatapur, farakh nagar, Pargana Loni, dist Ghaziabad, U.P.

5 DL/NCU/GHAU/A000000190 & DL/NCU/GHAU/A000001225, 1. Mrs. Nirmala Devi 2. Mr. Manoj Kumar & Mr. Vinay Kumar Demand Notice Date & Amount: 4-May-24 & Rs. 2707382/- as on 30-Apr-24

Date of Symbolic Possession: 23-Nov-24 Total Outstanding Rs. 26,44,769/- Reserve Price Rs. 35,24,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 3,52,400/-

Description Of The Immovable Property : Property Bearing No Plot No F- 170, Khasra No-26/5, Block -F, Gali No-5-B, West Karawal Nagar, Shahdara, Delhi - 110094

6 DL/NCU/GHAU/A000000470 & DL/NCU/GHAU/A000001198, 1. Mr. NAVEEN NAVEEN 2. Mr. KRISHAN KUMAR & 3. Mrs. SHARDA SHARDA Demand Notice Date & Amount: 26-Apr-23 & Rs. 1317243/- as on 20-Apr-23

Date of Symbolic Possession: 12-Jul-23 Total Outstanding Rs. 14,34,523/- Reserve Price Rs. 23,98,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,39,800/-

Description Of The Immovable Property : Plot Land area measuring 240 Sq. Yards i.e. 200.56 Sq. Meters, situated in the area of Village Faruk Nagar, Asatapur, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad, U.P.

7 DL/NCU/GHAU/A000000844 & DL/NCU/GHAU/A000001704, 1. Mr. BILLU BILLU 2. Mrs. RANI RANI Demand Notice Date & Amount: 23-Feb-24 & Rs. 1181320/- as on 9-Jan-24

Date of Symbolic Possession: 30-Dec-24 Total Outstanding Rs.1,12,663/- Reserve Price Rs. 26,02,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,60,200/-

Description Of The Immovable Property : Residential House No.99, Plot No 212, Area Measuring 53.5 Sq Yards Out Of Khassra No 272, Situated in Block B, Colony Known As Laxmi Garden In The Area Of Village Dharaoli Khurd Loni Ghaziabad Uttar Pradesh

8 DL/NCU/GHAU/A000000863 & CO/CP/CPD/A000000987, 1. Mrs. KAMLESH KUMARI 2. Mr. RAM KISHAN & 3. Mr. GAURAV GAURAV Demand Notice Date & Amount: 21-Sep-23 & Rs. 2924076/- as on 8-Sep-23

Date of Symbolic Possession: 15-Jan-25 Total Outstanding Rs. 27,94,217/- Reserve Price Rs. 50,63,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 5,06,300/-

Description Of The Immovable Property : Plot land area measuring 302.50 Sq. Yards i.e. 252.92 Sq. Mtr., out of Khasra No. 671, situated in the area of village Sharifabad rajour, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad, U.P.

9 DL/NCU/GHAU/A000002237, 1. Mr. SUNIL KUMAR 2. Mrs. ANITA ANITA Demand Notice Date & Amount: 30-Sep-24 & Rs.865390/- as on 28-Sep-24

Date of Symbolic Possession: 10-Jan-25 Total Outstanding Rs. 9,35,384/- Reserve Price Rs. 11,12,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs.1,11,200/-

Description Of The Immovable Property : Freehold Residential Rear Side Lig Flat No. G1-3 On Ground Floor Measuring 405 Sq. Ft. Or Say 37.63 Sq. Ml., Built On Plot No. F-27, Pertaining To Khasra No. 1305, Situated in Sil Ved Vihar, Village Loni, Pargana & Tehsil Loni Distt. Ghaziabad

10 DL/KPR/MADA/A000000018, 1. Mr. JOGINDER KUMAR 2. Mrs. KUMUD DEVI Demand Notice Date & Amount: 3-Apr-24 & Rs.22,23,251/- as on 10-Mar-24

Date of Symbolic Possession: 23-Oct-24 Total Outstanding Rs. 22,23,251/- Reserve Price Rs. 23,61,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,36,100/-

Description Of The Immovable Property : Plot Out Of Khassra No. 140ml, Tower Wali Gali, Nand Gram, Situated In Village Saddiknagar, Pargana Loni, Tehsil And District Ghaziabad Uttar Pradesh- 201003, Uttar Pradesh Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001

11 DL/SDR/SDRA/A000000129, 1. Mr. ANIL DUTT 2. Mrs. SAROJ DEVI Demand Notice Date & Amount: 20-Sep-23 & Rs. 23,00,661/- as on 11-Sep-23

Date of Symbolic Possession: 10-Jul-24 Total Outstanding Rs. 24,91,516/- Reserve Price Rs. 26,43,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,64,300/-

Description Of The Immovable Property : H. NO. 550 GALI NO. 14 GANDHI CHOWK KAILASH NAGAR GHAZIABAD UTTAR PRADESH-201009, GANDHI CHOWK KAILASH NAGAR, METRO, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH, INDIA - 201009

12 DL/DEL/PAND/A000000539, 1. Mr. DEEPAK KUMAR GAUTAM 2. Mrs. DEVI SARAN & 3. Mrs. SHAILY SHARMA Demand Notice Date & Amount: 24-Mar-23 & Rs. 20,66,852/- as on 17-Mar-23

Date of Symbolic Possession: 21-Jun-24 Total Outstanding Rs. 16,76,603/- Reserve Price Rs. 4,05,500/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 4,05,500/-

Description Of The Immovable Property : House No 850 Khasra No 1787 MI Gautam Bhavan Bhupendra Puri Gali No 5 Singh Ki Factory Wali Gali Tibra Road Modinagar Ghaziabad-201204, Jaitalabad, Ghaziabad, Rural, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201017

13 DL/DEL/PAND/A000000730, 1. Mr. ANKIT KUMAR 2. Mrs. NIKITA Demand Notice Date & Amount: 28-Dec-23 & Rs. 20,36,810/- as on 19-Dec-23

Date of Symbolic Possession: 7-Oct-24 Total Outstanding Rs. 20,08,753/- Reserve Price Rs. 26,79,900/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,67,900/-

Description Of The Immovable Property : Unit No B-108 1st Floor Tower/block-b Klassic Homez Rajnagar Extension Ghaziabad, Rajnagar Extension, Migns Road, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010.

14 DL/DEL/PAND/A000000147 & DL/DEL/PAND/A000000722, 1. Mr. SUNEEL KUMAR 2. Mrs. JYOTI SHNA Demand Notice Date & Amount: 5-Mar-24 & Rs. 15,54,627/- as on 20-Feb-24

Date of Symbolic Possession: 7-Oct-24 Total Outstanding Rs. 15,84,481/- Reserve Price Rs. 29,71,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,97,100/-

Description Of The Immovable Property : Apartment No. S-1206, 12th Floor, Situated At Migns Road, Plot No-4, 5 & 51, Raj Nagar Extension, Sikrog, Ghaziabad, Sikrog, Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201002.

PUBLIC NOTICE				
ICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400011.				
Corporate Office: ICICI HFC Tower, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059.				
Branch Office: Office No-8, 2nd floor, Sumridhhi Business Suites, 38/4-A, Sanjay Park Area - 282002 Branch Office: Shop No 9 R Ground floor, GKS Police, Ayut Khor - Chouk Road 63-64, Civil Lines, Bareilly - 243001				
The following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from ICICI Home Finance Company Limited ("ICICI HFC") and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). A notice was issued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was not served and hence they are hereby notified by way of this public notice.				
The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.				
Sr. No.	Name of the Borrower / Co-Borrower / Guarantor (Loan Account Number) & Address	Property Address of Secured Asset / Asset to be Enforced	Date of Notice Sent/Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
1	Smesh Sharma (Borrower), Seema Upadhyay (Co-Borrower), 14 Sangam Vihar S R Public Vidyalay Ke Pass Jagner Road Agra Agra Uttar Pradesh 282001. LHAGR00001503601	4 Plot 4 Khasra No 201 Bharat Vihar Colony Mauza Dahtora Tehsil And Distt Agra Dahtora 1 Agra Uttar Pradesh 282007. Bounded By - North: Land Of Deogar, South: 9 Mtr Wide Road And Exit, East:House Of Ramesh, West:PlotNo.5.	17-03-2025 Rs. 44850.54/-	05-Mar-25
2	Smesh Sharma (Borrower), Seema Upadhyay (Co-Borrower), 14 Sangam Vihar S R Public Vidyalay Ke Pass Jagner Road Agra Agra Uttar Pradesh 282001. LHAGR00001503683	4 Plot 4 Khasra No 201 Bharat Vihar Colony Mauza Dahtora Tehsil And Distt Agra Dahtora 1 Agra Uttar Pradesh 282007. Bounded By - North: Land Of Deogar, South: 9 Mtr Wide Road And Exit, East:House Of Ramesh, West:PlotNo.5.	17-03-2025 Rs. 1064575/-	05-Mar-25
3	Anil Kumar Chaudhary (Borrower), Rekha (Co-Borrower), 145 Kanooon Goyan, Prem Nagar Bareilly Uttar Pradesh 243001. LHBAR00001537397	"No Plot No 145 Udaypur Khas Maroof C 1 Area Near Takiya Moulah Shah Bareilly Up 243001 Bareilly No Bareilly Uttar Pradesh 243001. Bounded By - North: PO Others And After Than Railway Line, South:Rasta20Fl,East:Rasta36Fl, West:PlotNo.144."	17-03-2025 Rs. 1876152/-	05-Mar-25

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrower/s and/or their guarantors (as applicable) are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of publication of this notice else further steps will be taken as per the provisions of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Date: 29.03.2025 | Place: AGRA-BAREILLY Authorised Officer, ICICI Home Finance Company Limited

AUTHUM AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED

Regi. Off. : 707, Raheja Centre, Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai-400 021.

Ph. : (022) 6747 2117 Fax: (022) 6747 2118 E-Mail: Info@authum.com.

Branch Address : 1 A, 1st Floor, Copala Tower 25, Rajendra Place, New Delhi-110008

DEMAND NOTICE

Pursuant to the approved resolution plan of the Reliance Home Finance Limited, (RHFL) by its Lenders in terms of RBI Circular No. A12/2018-19/203, DBR.No. BP. BC. 45/21-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, the Hon'ble Supreme Court of India dated March 3, 2023 and the Special Resolution passed by the Shareholders on March 25, 2023, RHFL has entered into the agreement to transfer its Business by way of a slump sale on a going concern basis, to Reliance Commercial Finance Limited (Hereinafter referred to as "RCFL") and whereas all the rights and liabilities pertaining to the loan account (s) of the Borrower has/have also been transferred to RCFL. That RCFL was further acquired by Authum Investment and Infrastructure Limited., in pursuance of the implementation of the Resolution Plan submitted by Authum Investment and Infrastructure Limited on January 15, 2021 for RCFL in terms of the Reserve Bank of India (Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets) Directions, 2019. Furthermore, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ("NCLT"), approved the Scheme of Arrangement for demerger of lending business of RCFL to Authum Investment & Infrastructure Limited vide its order dated May 10, 2024, in view of which, the lending business and rights and entitlements attached thereto of the RCFL stands be transferred to and vested in Authum Investment and Infrastructure Limited as a going concern.

In view of the deed of assignment executed between Yes Bank and ALL, the Authorized Officer of the ALL, has power to invoke the provisions of the SARFAESI Act, 2002 to enforce the security interest.

Sr. No.	Loan No. / Name Of The Borrower / Address	Co-Borrower And Guarantor Name Director Name	NPA DATE	Date Of Demand Notice	Outstanding Amount	Loan Amount
1	RHHTDE000045323 & RHHLED000044928 / RAJEEV GOYAL / Property No-D-272 New Plot No -2 Old Second Floor Without Roof Rights Khasra No-31 Gali No-11 Laxmi Nagar Delhi-110092	MEENAKSHI GOYAL	06.11.24	24.03.25	Rs. 1203787/- (Twelve Lacs Three Thousand Seven Hundred Eighty Seven only) & Rs.1142832/(Eleven lacs Forty Two Thousand Eight Hundred Thirty Two only)	Rs. 1435000/- (Fourteen Lakh Thirty-Five Thousand Only) & Rs.1378400/- (Thirteen Lakh Seventy-Eight Thousand Four Hundred Only)

Description Of The Mortgage Property:- All The Piece And Parcel Of The Property One Built Up Portion On Second Floor Up To Ceiling Level, Without Roof Rights, Plinth And Covered Area Measuring 85.4 Sq.yds., Consisting Of Three Plus One Room Set, Fitted With Electricity And Water Tap Connections With Their Separate Meters in Running Conditions With Common Entrance Passage And Staircase With The Rights To Install/Maintain T.V. Antenna & Water Tank On The Roof Of Top Floor, A Part Of Property Bearing No.-D-272 (New), Plot No.-2/Old, Out Of Khasra No-31, Situated At The Abadi Of Gali No-11, Laxmi Nagar, In The Area Of Village Shakarpur Khas, Illaga Shahrada, Delhi-110092

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers, co-borrowers and/ or their guarantors (wherever applicable) to pay the outstanding dues mentioned along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules there under.

Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.

Dated : 29.03.2025 Place: Delhi Authorized Officer, Authum Investment & Infrastructure Limited

15 DL/NCU/NOIU/A000000799, 1. VIKAS KUMAR 2. Mrs. LOKESHWATI Demand Notice Date & Amount: 12-Jul-24 & Rs. 7,15,991/- as on 12-Jul-24

Date of Symbolic Possession: 23-Nov-24 Total Outstanding Rs. 6,60,297/- Reserve Price Rs. 26,66,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,66,600/-

Description Of The Immovable Property : PROPERTY NO 440, ENTIRE BUILDING, HARVANSH NAGAR, VILLAGE GHUKANA, GHAZIABAD, HARVANS NAGAR, METRO STAND GHUKNA, URBAN, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH, INDIA - 201001

16 DL/GRN/SRJP/A000000118 & CO/CP/CPD/A000001524, 1. Dev Dutt Sharma2. Mrs. SAVITA SHARMA Demand Notice Date & Amount: 4-Apr-24 & Rs. 10,80,022/- as on 10-Mar-24

Date of Symbolic Possession: 7-Oct-24 Total Outstanding Rs. 11,91,046/- Reserve Price Rs. 20,45,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,04,500/-

Description Of The Immovable Property : H.no 271 Mohalla Chiddapuri Palkhuwa Pargana Dasna Tehsil Hapur Ghaziabad, Mohalla Chiddapuri Palkhuwa Pargana Dasna Tehsil Hapur Ghaziabad, Metro, Palkhuwa, Uttar Pradesh, India - 245304.

17 DL/SDR/SDRA/A000001160, 1. Mr. AMIT KUMAR 2. Mrs. BABITA DEVI Demand Notice Date & Amount: 12-Jul-24 & Rs. 24,93,531/- as on 12-Jul-24

Date of Symbolic Possession: 23-Nov-24 Total Outstanding Rs. 25,06,483/- Reserve Price Rs. 29,59,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,95,900/-

Description Of The Immovable Property : Entire Property, Khasra No-253, ..village-Basantpur,saitihl,avika Beauty Parlour, Ghaziabad, UTTAR PRADESH, 201206, Village- Basantpur, Avika Beauty Parlour, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201206

18 DL/DEL/DLH/A0000001550 & DL/DEL/DLH/A000000997, 1. Mr. RAJINI RAJINI 2. Mr. MOOL CHAND Demand Notice Date & Amount: 26-Apr-24 & Rs. 5,35,579/- as on 25-Apr-23

Date of Symbolic Possession: 18-Aug-23 Total Outstanding Rs. 1,12,968/- Reserve Price Rs. 9,99,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 99,900/-

Description Of The Immovable Property : Flat No.GF-03, Ground Floor, Covered area 340 sq Feet, le 31.58sq mtrs Build up on Freehold Plot No.E-76, Out of Khasra No.1293, Situated at Residential Colony Known as "S.L.F Ved Vihar" in village Loni, Pargana and Tehsil Loni, District-Ghaziabad, Uttar Pradesh.

19 DL/SDR/SDRA/A000001160, 1. Mr. AMIT KUMAR 2. Mrs. BABITA DEVI Demand Notice Date & Amount: 12-Jul-24 & Rs. 24,93,531/- as on 12-Jul-24

Date of Symbolic Possession: 23-Nov-24 Total Outstanding Rs. 25,06,483/- Reserve Price Rs. 29,59,000/- | Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,95,900/-

Description Of The Immovable Property : Entire Property, Khasra No-253, Village-Basantpur, saithil, Avika Beauty Parlour, Ghaziabad, UTTAR PRADESH, 201206, Village-Basantpur, Avika Beauty Parl

नासिक में होने वाले कुंभ मेले के नाम को लेकर अखाड़ों में मतभेद

नासिक, 28 मार्च (भाषा)।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 23 मार्च को हुए दौर के बाद महाराष्ट्र के नासिक में वर्ष 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों में तेजी आ गई है, लेकिन इस विशाल मेले के नाम को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं।

मुख्यमंत्री के दौर के दौरान च्यंबकेश्वर अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि इस उत्सव को च्यंबकेश्वर-नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाए। हालांकि नासिक नगर निगम


नासिक अखाड़ों के साथुओं और महंतों ने यह भी मांग की कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले सिंहस्थ कुंभ मेला प्राधिकरण में शामिल किया जाए तथा कुंभ के लिए 500 एकड़ से अधिक भूमि स्थायी रूप से आरक्षित की जाए।

नाम से संबंधित मांगों के बारे में पूछे जाने पर नासिक के जिलाधिकारी जलज शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे से संबंधित जानकारी (रेकार्ड की जांच के बाद) सरकार को सौंपी जाएगी

यह भी मांग की कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले सिंहस्थ कुंभ मेला प्राधिकरण में शामिल किया जाए तथा कुंभ के लिए 500 एकड़ से अधिक भूमि स्थायी रूप से आरक्षित की जाए।

नाम से संबंधित मांगों के बारे में पूछे जाने पर नासिक के जिलाधिकारी जलज शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे से संबंधित जानकारी (रेकार्ड की जांच के बाद) सरकार को सौंपी जाएगी

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)
कॉर्पोरेट ऑफिस : 909 और 904, 5 वीं फ्लोर, सी-ब्लॉक, इंदिरा कैबिनेट, कैबिनेट मैन रोड, बांद्रा नुर्त क्रीमियस, बांद्रा (ई), मुंबई-400 051 रजिस्टर्ड ऑफिस: कोमरोडन एंजुली चर्च, टॉवर बी, जयम कवर, नंबर 511, मरवा मुल्काजी रोड, सेक्टर, केमोई-400 116, टीएफ
सुविधाएं
कृपया इस समाचार पत्र में 28.03.2025 को प्रकाशित हमारे "अचल संपत्ति के लिए कच्चे के नोटिस" का संदर्भ लें। इस नोटिस में संबंधित उम्मीदवारों राहुल कुमार का नाम (जिन छाता संख्या 613339511539288 और 613339211488658), गवर्नरी से रिश्ता कुमार के रूप में प्रकाशित हुआ था, इसलिए कृपया चही नाम राहुल कुमार पढ़ें, न कि रिश्ता कुमार। अन्य विवरण यही रहेंगे।
स्थान : सहायपुर/गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
दिनांक : 29 03 2025
प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

 <div>Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME</div>	<div>सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</div> <div>कोर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 402, उत्तरांचल हिल्स-3, बुधवार पार्क, 122016</div> <div>पंजीकृत कार्यालय : 501 वॉल, सुंदर भवन, अजमेरपुर वाणिज्यिक परिसर, अजमेरपुर, नई दिल्ली- 110033</div>		
<div>अग्रिम सूचना (अचल संपत्ति सेटु) नियम 8-(1)</div> <p>जबकि, अयोध्यासहकरता में सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मामा सूचनायें निर्गत की थीं जिनमें यहां निम्न विनिर्गत श्रेणियों/ओं को मृगतान की वास्तविक तिथि तक नियत समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ सूचना में अक्षित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूतगत करने को कहा गया था।</p> <p>उक्त श्रेणिकर्ता/सह-श्रेणिकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, श्रेणिकर्ता/सह-श्रेणिकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अयोध्यासहकरता में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ इस तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से श्रेणिकर्ता/सह-श्रेणिकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता तथा आम जनता को इस प्रकार संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित लेन-देन इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए संबंधित विधियों से पूर्ण मृगतान तक अतिरिक्त धाया, लागत और शुल्क के साथ, सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। श्रेणिकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) के प्रावधान की और आकर्षित किया जाता है, जो सूचित परिसंपत्तियों को नुनाने के लिए उपलब्ध समस्त के संबंध में है। श्रेणिकर्ताओं, सह-श्रेणिकर्ताओं और गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए निम्नो नोटिस और उत्तरते तहत दावा की गई राशि और कच्चे की तिथि का विवरण निम्नांकित है:</p>			
<div>क्र. सं.</div>	<div>श्रेणिकर्ता/सह-श्रेणिकर्ता के नाम / श्रेण. छाता सं.</div>	<div>मांग सूचना तिथि</div>	<div>देय राशि रु. में</div>
		<div>अग्रिधरण तिथि</div>	
1.	<div>कमल प्रकाश पुत्र सुरेश चंद (उधारकर्ता) 1. शीवाल शीवाल पुत्नी कमल प्रकाश (सह उधारकर्ता) लोन संख्या LAKN1.0123-000066672</div>	<div>21.09.2023 24.03.2025</div>	<div>रु. 210114/- (रुपये दो लाख दस हजार एक सौ बीसह मात्र) 09 / 12 / 2024 के अनुसार</div>
<div>अचल संपत्ति का विवरण— प्लॉट /संपत्ति माप क्षेत्र 50 वर्ग गज, यानी 1 परस 6 सरसूड 14 कनाल 6 मसल में से 5/888 हिस्सा है जो खेत नंबर 654 खाली नंबर 756 डिस्ट 2 में शामिल है। खानसर चौक कोलोनो, सकोली, पित्तन— जौद, हरियाणा में स्थित है। निम्नानुसार चित्र हुआ पूर्व— 15 फीट गली, पश्चिम— 15 फीट दूसरे का प्लॉट, उत्तर— 30 फीट दूसरे का प्लॉट, दक्षिण— 30 फीट नीसम (कमलेरा) का घर। पंजीकृत: 14. 12.2021, क्रम संख्या 3842, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 41, पृष्ठ संख्या 139.5।</div>			
2.	<div>कमल प्रकाश पुत्र सुरेश चंद (उधारकर्ता) 1. शीवाल शीवाल पुत्नी कमल प्रकाश (सह उधारकर्ता) लोन संख्या LAKN1.0522-00005032</div>	<div>21.09.2023 24.03.2025</div>	<div>रु. 665504 /— (रुपये बीघ लाख सैंस हजार पाँच सौ चार मात्र) 09 / 12 / 2024 के अनुसार</div>
<div>अचल संपत्ति का विवरण— प्लॉट /संपत्ति माप क्षेत्र 50 वर्ग गज, यानी 1 परस 6 सरसूड 14 कनाल 6 मसल में से 5/888 हिस्सा है जो खेत नंबर 654 खाली नंबर 756 डिस्ट 2 में शामिल है। खानसर चौक कोलोनो, सकोली, पित्तन— जौद, हरियाणा में स्थित है। निम्नानुसार चित्र हुआ पूर्व— 15 फीट गली, पश्चिम— 15 फीट दूसरे का प्लॉट, उत्तर— 30 फीट दूसरे का प्लॉट, दक्षिण— 30 फीट नीसम (कमलेरा) का घर। पंजीकृत: 14. 12.2021, क्रम संख्या 3842, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 41, पृष्ठ संख्या 139.5।</div>			
3.	<div>सुरेंद्र यादव पुत्र बनारस सिंह (उधारकर्ता) 1. संतोष संतोष पुत्री बबली सिंह 2. जगदीश यादव पुत्नी सुरेंद्र यादव (सह-उधारकर्ता) लोन संख्या LARE10324-000106626</div>	<div>21.09.2023 24.03.2025</div>	<div>रु. 1811968 /— (रुपये अठ्ठाार लाख चारसह हजार नौ सौ अड़सह मात्र) 09 / 12 / 2024 के अनुसार</div>
<div>अचल संपत्ति का विवरण— संपत्ति मुरैलन नंबर 66, किला नंबर 11, यानी 8 मसल में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 251 वर्ग गज है। (पूर्व-पश्चिम— 80 फीट और उत्तर-दक्षिण— 28 फीट 3 इंच) रेवाड़ी, रेलवे कोलोनो और मंडूपुर रोड के पास, तहसील और जिला रेवाड़ी, हरियाणा में स्थित है। निम्नानुसार सीमा: उत्तर— हुकुम सिंह की संपत्ति, दक्षिण— ईश्वर सिंह की संपत्ति, पश्चिम— रोड 12 फीट, पूर्व— बंकाता लालावती और प्रेम कुमार जोशी की संपत्ति। पंजीकृत: 11.03.1986, बिड़ी विलेख संख्या— 3370 के अनुसार।</div>			
<div>स्थान : पुराणम</div> <div>दिनांक : 28-03-2025</div>		<div>प्राधिकृत अधिकारी,</div> <div>सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</div>	

This is only an advertisement for information purpose and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized term used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of offer dated 05th February 2025 (the “Letter of Offer” or “LOF”) filled with the Stock Exchange and nameely BSE Limited (“BSE”) (“Stock Exchange”) and the securities and Exchange Board of India (“SEBI”)

HARSHIL AGROTECH LIMITED

Registered Office: S F 225, I-Square Near Shukan Mall, Science City Road, Sola, Daskroi, Ahmedabad, Gujarat, 380060 • Contact Number: 99987 57577 • Contact Person: Shilpa Bansal, Company Secretary & Compliance Officer • E-mail Address: harshilagrotechlimited@gmail.com Website: www.harshilagrotech.com • Corporate Identity Number: L01611G1J972PLC147529

THE PROMOTER OF OUR COMPANY IS PANKAJKUMAR PATEL

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF HARSHIL AGROTECH LIMITED

ISSUE DETAILS, LISTING AND PROCEDURE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 20,32,00,000 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00/- (RUPEES ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE ‘RIGHTS EQUITY SHARES’) FOR CASH AT A PRICE OF ₹2.43 (RUPEES TWO AND FORTY THREE PAISA ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1.43 (RUPEES ONE AND FORTY THREE PAISA ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4937.76 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 2 (TWO) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 5 (FIVE) FULLY PAID UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON 5TH FEBRUARY, 2025 (THE ‘ISSUE’). FOR FURTHER DETAILS, SEE ‘TERMS OF THE ISSUE’ BEGINNING ON PAGE 158. THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 2.43 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

*assuming full subscription.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Tuesday, February 18, 2025, and closed on Wednesday, March 19, 2025 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, March 11, 2025. On gross basis the Issue was subscribed to the extent of 1.04 times before technical and partial rejection & withdrawal. Out of the total 4112 Applications for 21256584 Rights Equity Shares, 730 Applications for 2606969 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 3382 for 209958873 Rights Equity Shares. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on March 24, 2025, by the Company in consultation with BSE Limited (“BSE”) and the Registrar to the Issue. The Board of Directors of the Company has, at its meeting held on March 24, 2025, approved the allotment of 20,32,00,000 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

1. The Breakup of valid application received through ASBA (after technical rejections) is given Below;

Category	No. of valid CAFs received		Equity shares applied for			Equity shares allotted		
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Eligible Equity Shareholders	2,465	20.84	6,00,94,318	14,60,29,192.74	28.62	6,00,94,318	14,60,29,192.74	29.57
Renouncees	917	79.16	14,98,64,555	36,41,70,868.65	71.38	14,31,05,682	34,77,46,807.26	70.43
Total	3,382	100.00	20,99,58,873	51,02,00,061.39	100.00	20,32,00,000	49,37,76,000.00	100.00

2. Basis of Allotment :

Category	No. Applications	No. Equity Applied For	No. of Equity Shares allotted under Rights Entitlement (A)	No. of additional Equity Shares allotted (B)	Total Shares (A+B)
Eligible Equity Shareholders	2,465	6,00,94,318	1,20,03,060	4,80,91,258	6,00,94,318
Renouncees	917	14,98,64,555	1,85,00,999	12,46,04,683	14,31,05,682
Total	3,382	20,99,58,873	3,05,04,059	17,26,95,941	20,32,00,000

*Includes Fractional Eligible Shareholders.

Intimations for Allotment/ refund/ rejection cases : The dispatch of allotment advice cum refund intimation and question for rejection, as applicable, to the Investors have been completed on March 24, 2025. The instructions to Self-Certified Syndicate Banks (“SCSBs”) for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on March, 24, 2025. The Listing application was executed with BSE on March 25, 2025

The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees has been completed on March 29, 2025. No physical shares were rendered in the Rights Issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted/to be granted by BSE, the Rights Equity Shares Allotted in the issue is expected to commence trading on BSE on or about April 2, 2025. In accordance with the SEBI circular bearing reference SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement is expected to be completed on or about March 28, 2025.

INVESTORS MAYPLEASE NOTE THAT THE EQUITYSHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the “Disclaimer Clause of SEBI” beginning on page 145 of the LOF. **DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange) :** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the “Disclaimer Clause of BSE” beginning on page 146 of the LOF.

COMPANY DETAILS	HARSHIL AGROTECH LIMITED
Registered Office: S F 225 I Square Near Shukan Mall, Science City Road, Sola, Ahmedabad, Daskroi, Gujarat, India, 380060	
Contact Number : +91 99987 57577 • Contact Person: Shilpa Bansal, Company Secretary & Compliance Officer	
E-mail Address: harshilagrotechlimited@gmail.com • Website: www.harshilagrotech.com • Corporate Identity Number: L01611G1J972PLC147529	

Investors may contact the Registrar to the Issue, or our Company Secretary, or our Compliance Officer for any issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail ID of the sole / first holder, folio number or demat account number, serial number of the Application Form, number of the Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see ‘Terms of the Issue’ on page 158 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Place : Ahmedabad
Date : March 29, 2025

REGISTRAR TO THE ISSUE	PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
	Registered Office : 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Panel (East) Mumbai 400011
	Maharashtra, India • Contact Number : 022-4961 4132 • Contact Person: Ms. Deepali Dhuri
	• Investor grievance e-mail: newissue@purvashare.com • Website: https://www.purvashare.com

तेज हवाओं के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द

श्रीनगर, 28 मार्च (भाषा)।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर तेज हवाओं के कारण कई उड़ान या तो रद्द कर दी गईं या उनका मार्ग परिवर्तित कर दिया गया या फिर उनके परिचालन में देरी हुई।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि तेज हवाओं के कारण 19 उड़ान रद्द कर दी गईं, जबकि दो उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कई अन्य उड़ानों के परिचालन में देरी हुई।

SPARK MINDA
Powered by Proton
मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN: L74899DL1985PLC020401
पंजीकृत कार्यालय: ए-15, अशोक विहार, फेस-I, दिल्ली – 110052
कॉर्पोरेट कार्यालय : डी-6-11, सैक्टर-59, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष : 0120-4442500
वैबसाइट: www.sparkminda.com, ई-मेल: investor@mindacorporation.com
डाक मतपत्र की सूचना
मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (“कंपनी”) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार (फिलहाल लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन) (“अधिनियम”) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (“नियम”) के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित, सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020, 22 / 2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33 / 2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39 / 2020 दिनांक दिसंबर 31, 2020, 10 / 2021 दिनांक 23 जून 2021, 20 / 2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, 03 / 2022 दिनांक 05 मई 2022, 11 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (“एसोए”), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी”) द्वारा जारी किया गया (इसके बाद सामूहिक रूप से “परिपत्र” के रूप में संदर्भित), विनियम 44 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक (एसएस-2), कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम, परिपत्र, अधिसूचना और विनियमन (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित), दूरस्थ ई-वोटिंग (“ई-वोटिंग”) प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र (“डाक मतपत्र”) के माध्यम से विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी के प्रमोटर मिंडा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को 550 रुपये प्रति वारंट की दर से तरजीही आधार पर 76,50,000 शेयर वारंट जारी करने के लिए कंपनी के सदस्यों की मंजूरी मांगी गई है।
एससीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने उन सदस्यों को शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भेजी हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 (“कट-ऑफ तिथि”) तक पंजीकृत हैं।
उक्त नोटिस कंपनी की वैबसाइट www.sparkminda.com , बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के संबंधित अनुभाग www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है जिस पर कंपनी के इक्विटी शेयर पर सूचीबद्ध है तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (“एनएसडीएल”) की वैबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
एससीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकारी की गणना कट-ऑफ तिथि पर उनके पास मौजूद कंपनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर कंपनी का शेयरधारक नहीं है, वह डाक मतपत्र सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से मानेगा।
कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग शनिवार, 29 मार्च, 2025 को सुबह 09.00 बजे मा.मा.स. से शुरू होगी और रविवार, 27 अप्रैल, 2025 को शाम 05.00 बजे मा.मा.स. समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा यानी उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इसे पंजीकृत करें और मौलिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट आरटीए), स्कॉडिलाइन फाइनंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को या तो ईमेल द्वारा admin@skynilerta.com पर को लिखकर या डाक द्वारा डी-153 / ए. पहली संचालित, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 पर मेल भेज कर इसे पंजीकृत करें।
बोर्ड ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप पर पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए एी बिब्वजीत घोष (एफसीएस –8750, सीपी सं.–8239), पार्टनर, उनके न होने पर श्री प्रमोद एसएम (एफसीएस–7834, सीपी सं.–13784), पार्टनर, बीएमपी एड कंपनी एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सदियों को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।
ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद सीबीक अपनी रिपोर्ट अद्यक्ष या अद्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, और पोस्टल वॉलेट द्वारा ई-वोटिंग का परिणाम 2 या 3 कार्य दिवसों, ई-वोटिंग के समापन से जो भी पहले हो, के भीतर घोषित किया जाएगा। उसे कंपनी की वैबसाइट www.sparkminda.com के साथ-साथ एनएसडीएल की वैबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों एवं आरटीए को सूचित किया जाएगा।
किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल को देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरा तल मनम चैम्बर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ली कॉम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र – 400051 से निर्दिष्ट ईमेल evoting@nsdl.com या टेलीफोन नंबर: +91 022 24997000, +91 022 48867000 पर संपर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगे या कंपनी सचिव, मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी-6-11, सैक्टर-59, नोएडा-201301, फोन0120-4442500 या investor@mindacorporation.com से संपर्क कर सकते हैं।
मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए
हस्ता /—
प्रदीप मान
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : ए-13371

स्थान : पुणे

दिनांक : मार्च 28, 2025

 कार्यालय उप महाप्रबन्धक (सिखित), निर्माण खण्ड-प्रथम उपरो राज्य अधीनक्ष विकास प्रधिकरण गोखरावपुर। website: https://onlineupsida.com		
अपकारात्रीन विविता सूचना		
एलएचएडर अथवा विविता जातार हे वि. प्रधिकरण को विविता जातारको मे विगत उद्योगिक क्षेत्रो मे विविता जातार, विकसत अथवा उद्योग उद्योगको मे जातार क्षेत्र रसकार/सहायिकता उपकरण/पेयम/प्रधिकरण/उद्योग/नगर विकासको मे पदोक्तकर्ता जातारको मे अपकारात्रीन विविता जातारको मे जातार हे।		
सं.	कार्यको का नाम	समाप्तिकाल
1.	Supplying of 1 number JCB and 4 number Tractor 407 , 02 Tractor trolley 4 nos. Sweeper and 1 supervisor for waste disposal of industrial area Kavi Nagar, Ushyog Kunj Dams Ghaziabad on daily basis for one month	7.15
2.	Supplying of 1 number JCB and 3 number Tractor 407, 03 Tractor Trolley, 04 nos. Sweeper and 1 supervisor for waste disposal of industrial area Sector-22 Meerut Road & Site-3 Meerut Road Ghaziabad on daily basis for one month	7.24
3.	Supplying of 1 number JCB and 3 number Tractor 407, 03 Nos of Tractor Trolley 4 nos. Sweeper and 1 supervisor for waste disposal of industrial area Loni Road Site-2 & Industrial Estate Loni Ghaziabad on daily basis for one month	7.32
4.	Supplying of 1 number JCB and 4 number Tractor 407 , 02 Nos of Tractor trolley 3 nos. Sweeper and 1 supervisor for waste disposal of industrial area Site-4, Sahibabad(Phase-I) Ghaziabad on daily basis for one month	7.28
5.	Supplying of 1 number JCB and 4 number Tractor 407 , 02 Nos of Tractor Trolley, 3 nos. Sweeper and 1 supervisor for waste disposal of industrial area Site-4, Sahibabad(Phase-I) Ghaziabad on daily basis for one month	7.28
6.	Supplying of 1 number JCB and 4 number Tractor 407, 01 Tractor Trolley 2 nos. Sweeper and 1 supervisor for waste disposal of industrial area Bulandshahar Road site 1, Ghaziabad on daily basis for one month	7.25
7.	Supplying of 1 number JCB and 3 number Tractor 407 , 02 Nos. Of Tractor Trolley 2 nos. Sweeper and 1 supervisor for waste disposal of industrial area Loha Mandi, SSGT Road, Distt:-Ghaziabad on daily basis for one month	6.75
उक्त कार्यको निर्माण विविता 29.03.2025 को 11:00 बजे से विगत 01.04.2025 को साँझ 05:00 बजे तक जारी राखे से जस जस प्रकारको विगत 07.04.2025 को 05:00 बजे तक जारी जातार। जस निर्माणको विगत 07.04.2025 को 05:00 बजे तक जारी जातार।		
नोट:- 1 निर्माणकारा अथवा निर्माणकार मे सफल कार्य सफा हे अपकारात्रीन विविता जातार से देय होत। (अपकारात्रीन विविता जातारको विविता), निर्माण खण्ड-प्रथम, मो. -9205691928		